

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2015—भाद्र 24, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-696.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर के माह सितम्बर 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगरपालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर.	अध्यक्ष	-	सुशीला संतोष रोहित	भारतीय जनता पार्टी	
2		पार्षद	1	एक	अशोक पटेल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कौशल्या राजेश्वर सेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	राजा रिछारिया	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	उमाबाई/गोविन्द सिंह	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	बाबूलाल रोहित	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	विनीता तीरथ सिंह	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		पार्षद	7	सात	हरलाल साहू (फर्सि वाले)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	कौशल्या मिहीलाल अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	चन्द्ररानी गोविन्द पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मणि बलवन्तसिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	पिंकी दिनेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति सीमा लखन अहिरवार	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	संजय विजय जैन	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	केशरबाई पति धनीराम अहिरवार	बहुजन समाज पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विक्की विजय	निर्दलीय
17		पार्षद	16	सोलह	राजू डिस्क	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	भागीरथ सब्जी वाले	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.